

### पोलीटेक्निक स्कूल

1280. डा० लक्ष्मीनारायण पांडे : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कुल कितने पोलीटेक्निक स्कूल अथवा कालेज हैं ;

(ख) प्रतिवर्ष इन संस्थाओं में प्रवेश चाहने वाले छात्रों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या इन प्रकार की आम शिकायत है कि उच्च संस्थाओं से डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो तकनीकी योग्यताओं वाले व्यक्तियों को तत्काल रोजगार दिलाने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). हमारे देश में इस समय 283 पोली-टेक्निक स्कूल है जिनमें प्रतिवर्ष लगभग 45,000 विद्यार्थियों को प्रवेश देने की क्षमता है। किन्तु इंजीनियरी के स्नातकों तथा डिप्लोमाधारियों में इस समय फ़ैली हुई बेरोजगारी के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान यह प्रवेश संख्या कम करके 28,000 तक सीमित कर दी गई है।

(ग) और (घ). उद्योगों में मंदी आने से तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित योजनाओं को स्थगित कर देने के कारण, इंजीनियरी से सम्बद्ध सभी वर्गों के कामियों में पिछले चार-पांच वर्षों से व्यापक बेरोजगारी फ़ैली हुई है। इंजीनियरी सम्बन्धी कामियों के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उत्पन्न करने हेतु केन्द्रीय सरकार ने 1968 में अनेक उपाय शुरू किये थे। इन उपायों तथा अब तक हुई प्रगति के विषय में एक विस्तृत

विवरण तारांकित प्रश्न संख्या 46 के उत्तर के साथ 31 मार्च 1971 को सभा-पटल पर रखा जा चुका है।

### संस्कृत का प्रचार और विकास

1281. डा० लक्ष्मी नारायण पांडे : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष के दौरान संस्कृत के प्रचार और विकास पर सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय की गई ;

(ख) किस माध्यम से यह राशि व्यय की जाती है ;

(ग) क्या संस्कृत के प्रचार और विकास के लिये सरकार को सुझाव देने के लिए कोई विशेष समिति गठित की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) 49.88 लाख रुपये।

(ख) राज्य सरकारें, स्वायत्तशासी संगठन, स्वैच्छिक संस्कृत संगठन/संस्था और व्यक्ति।

(ग) केन्द्रीय संस्कृत परिषद की स्थापना (भूतपूर्व केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड के स्थान पर) जनवरी, 1970 में की गई थी, जो संस्कृत प्रचार और विकास से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देती है।

(घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [संघालय में रखा गया। देखिये संख्या LT-315/71]

### भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी विद्यार्थी

1282. डा० लक्ष्मी नारायण पांडे : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताते

की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय शैक्षिक संस्थाओं के नाम क्या हैं तथा वे कहाँ स्थित हैं जहाँ इस समय विदेशी विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं ;

(ख) उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है तथा वे किन किन देशों के हैं ; और

(ग) उन पर सरकार प्रतिवर्ष कितनी राशि खर्च करती है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). विश्वविद्यालयों में प्राप्त हुई अद्यतन उपलब्ध सूचना जो 1968-69 से सम्बन्धित है, विवरणों में दी गई है, जो मन्त्रालय पर रख दिये गये हैं। [मंत्रालय में रखा गया। देखिये सख्या LT-316/71]

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

**Appointment of Managing Director of M/S. Indian Oxygen Ltd.**

1283. SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH: Will the Minister of COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether M/s. Indian Oxygen Limited have, in their last annual meeting approved the appointment of their Managing Director on remunerations which violates the statutory limit fixed lately by Government ;

(b) whether the same has been approved by Government ; and

(c) if so, the action being taken by Government to bring the remuneration of the said managing director down within the statutory limits?

THE MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI RAGHUNATHA REDDY) : (a) to (c). Mr. Keith Hartley was Assistant Managing Director of the Company from 1st April, 1963 and was promoted as Joint Managing Director with effect from 1st Sep-

tember, 1969 on a salary of Rs. 8000/- p.m., overseas allowance of Rs. 1500/- p.m. and perquisites. Recently the company sought approval to his appointment as Managing Director with effect from 1st April, 1971 on the same salary of Rs. 8000/- with increased foreign allowance of Rs. 2500/- p.m. in addition to commission at 1% of the net profits not exceeding Rs. 45,000/- per annum and perquisites. Although the proposed salary was in excess of the administrative ceiling of Rs. 7,500/-, it was approved in view of the fact that Mr. Hartley was already drawing the same previously as the Joint Managing Director and this came within the recognized exceptions. His total remuneration by way of salary and commission was however made subject to the administrative ceiling of Rs. 1.35 lacs per annum and no increase in Overseas Allowance was allowed. This remuneration was subject to the approval of the company at its general meeting as required under Section 309 (1).

The Thirty Sixth Annual General Meeting of the Company was scheduled to be held in February, 1971. It is not yet known if the said meeting was held and whether the proposed remuneration was approved or not.

**Abolition of Reservation of seats for Scheduled Castes in Assemblies and Parliament**

1284. SHRI MUHAMMAD SHERIFF : Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government have considered the abolition of reservation of seats for Scheduled Castes in the Assemblies and Parliament ; and

(b) if so, the decision arrived at ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHRI K. S. RAMASWAMY) : (a) and (b). The matter was considered at the time of the passing of the Constitution (Twentythird Amendment) Act, 1969, which has extended the period of such reservations upto the 25th January, 1980.